



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

A Central University established by an Act of Parliament

(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

F No. 1(61)/LBSNSU/Estt.-NT/2022/ 04

Dated:- 06.04.2023

NOTIFICATION

Pursuant to the letter No. 8-46/2021-L.II dated 15.11.2021 of the Government of India, Ministry of Education, Department of Higher Education, Language Division, a Committee named as 'Bharatiya Bhasha Samiti' has been constituted to explore and recommend a pathway for holistic, multi-disciplinary growth for promotion of Indian Languages as envisaged in the National Education Policy-2020 and advise the Ministry on all matters pertaining to revitalization of existing language teaching and research and its extension in various institutions in the country.

The Bharatiya Bhasha Samiti requires resource persons to be engaged for translation and research work as per following details:

Position	Remuneration (per month)	Eligibility Criteria
Resource Person (For Translation & Research Work) 1. Assamese 2. Gujarati 3. Kannada 4. Kashmiri 5. Konkani 6. Odia 7. Santali 8. Sindhi 9. Tamil 10. Telugu	Rs.40,000/- (Consolidated)	Essential: a. M.A. in Indian language/ Linguistics/ Applied Linguistics/ Translation Studies from a recognized University with minimum 55% marks. b. Proficiency in two or more languages (of which at least one should be a Scheduled language). c. Demonstrable translation skill from Hindi/English/Sanskrit to at least one Scheduled language and vice-versa. d. Knowledge of computer, typing and ICT skills is essential. Desirable: a. Experience of working in a recognized organization/institution in the area/field of translation/research related work. b. Having good verbal/written communication skills and shall be proficient in noting/drafting and official correspondence in at least one Scheduled Indian language as well as in English language. c. Preference will be given to those who know multiple Indian languages. Maximum age: 45 years.

Terms & Conditions of engagement:

- **Term of Appointment:** The engagement shall be on purely temporary basis and shall be continued only till the services are required by the Bharatiya Bhasha Samiti. The resource


persons will be engaged for a period of four months (04-months), subject to satisfactory performance.

- **Remuneration:** A fixed remuneration as mentioned above shall be admissible. The remuneration amount shall remain constant throughout the term of the contract. There shall be no annual increment/percentage increase during the contract period.
- **Leave of absence:** Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1 day for each completed month of service.
- **Place of engagement:** All resource persons shall be engaged to work on full time basis at office of the Bharatiya Bhasha Samiti, Vishwakarma Bhawan, IIT-Delhi Campus, New Delhi-110016.
- The Resource person shall be ineligible for any other benefits available to regular University employees. S/he will have no claim for regularisation/seniority on the basis of this engagement.
- The Bharatiya Bhasha Samiti reserves the right to terminate the engagement at any time, even before the stipulated time. The resource person shall be required to perform the duties as assigned by the Chairman, Bharatiya Bhasha Samiti from time to time during the period of engagement. The complete details of the duties and responsibilities etc., will be communicated separately along with the offer of engagement.
- The Bharatiya Bhasha Samiti reserves the right to withdraw this notification at any point of time. Any corrigendum/addendum or any other related information relating to recruitment shall be posted on the website "slbsrsv.ac.in" of the University only, for which the candidates are required to be in constant touch with the website of the University.

How to apply:


1. Download the Application Format (soft copy in Word doc) from the official website of Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University: www.slbsrsv.ac.in
2. Fill the form carefully with all necessary details. Kindly note, any alteration in the application format is not permitted.
3. Paste the scanned copy of your passport size photograph and signature at appropriate place in the form.
4. Make PDF of the word document application.
5. Rename the PDF as your full name.
6. Send the PDF through email to Assistant Registrar (Selection), Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University on email ID: manjit@slbsrsv.ac.in
7. Write subject of the email as '**Application for BBS Resource Person (Translation)-<Indicate language as enlisted in the table>**'
8. The last date to apply: **16th April 2023** by midnight.

The shortlisted candidates will be informed through email to attend the **interview**. They will be required to produce/show the original documents in support of their qualifications and experience at the time of the interview. No TA/DA will be paid for attending the interview.


Assistant Registrar(Assistant Registrar)

Copy to:

- All Members of the Bharatiya Bhasha Samiti, TIFAC at 3rd Flor, A wing, Vishwakarma Bhawan, IIT-D Campus, New Delhi-110016.
- The Deputy Secretary (Languages), Ministry of Education, Govt. of India, Shastri Bhawan New Delhi-110001.
- Chief Vigilance Officer.
- System Administrator(Computer Centre, SLBSNSU, New Delhi-with a request to place this notification on the website of SLBSNSU, New Delhi for information of all concerned.
- OSD to V.C.
- P.S. to V.C./Registrar/Finance Officer.
- Concerned file.


Assistant Registrar(Assistant Registrar)

SLBSNSU, New Delhi

भारतीय भाषा समिति

Bharatiya Bhasha Samiti
(Ministry of Education, Govt. of India)

3rd Floor, 'A' Wing, Vishwakarma Bhawan, Shaheed Jeet Singh Marg, Katwaria Sarai, New Delhi -110016

आवेदन पत्र

Application Form

01	पद का नाम/Name of the Position	Resource Person (For Translation and Research work) for (Mention only one language)				
02	आवेदक का पूरा नाम Applicant's full name (Including Surname/Family name in Capital letters)					
03	पत्राचार का पता: Mailing Address:				अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चिपकाएँ Paste your recent passport size photograph here	
		पिन/PIN:				
	ई-मेल/E-mail:					
	मोबाइल नंबर/Mobile No.:					
04	जन्मतिथि: (आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को आयु) Date of birth: (Age as on the last date of Application)	तिथि Day	महीना Month	वर्ष Year	आयु (वर्ष में) Age in years	
05	आवेदक की राष्ट्रीयता: Nationality of the Candidate:	06	लिंग: Gender:	07	वैवाहिक स्थिति: Marital status:	
08	न्यूनतम योग्यता: शैक्षणिक (कक्षा १० से आगे) Essential Qualifications: Educational qualification (Class 10 th onwards)					
	पाठ्यक्रम Course	बोर्ड/विश्वविद्यालय एवं स्थान Board/University & Place	वर्ष Year	कक्षा Class	अंक / Marks (प्रतिशत में) % /marks	अध्ययन विषय Subjects Studied
	वांछनीय: Desirable:					

अन्य योग्यताएँ, यदि कोई हों तो:
Other Qualifications, if any:

09 **कार्य अनुभव:**

Work Experience:

क्र.सं. Sl. No.	फर्म/संगठन/संस्थान का नाम Name of the firm/organization/institution	अवधि No. of years	कार्य की प्रकृति Nature of work
1			
2			
3			

10 **भाषा कौशल (मातृभाषा को रेखांकित करें):**

Language Proficiency (Mother Tongue to be underlined):

भाषा Language	वाचन Speak	पठन Read	लेखन Write	कौशल स्तर का उल्लेख करें Level of proficiency to be mentioned

11 **आई.सी.टी. /डिजिटल कौशल:
ICT/Digital Skills:**

12 **कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी:
Any other relevant information:**

स्वघोषणा / SELF-DECLARATION

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गयी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है। आवश्यकता पड़ने पर इसके समर्थन में मेरे द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा। मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि आवेदन में किसी भी विसंगति या गलत जानकारी देने के कारण किसी भी समय पद के लिए मेरी अभ्यर्थता निरस्त हो जाएगी।

I hereby declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I will present the supporting documents as and when required. I fully understand that any discrepancy or false information in the application will lead to cancellation of my candidature for the position at any time.

दिनांक/Date:		
स्थान/Place:		(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर) (Signature of the applicant)